

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में पांच नए मेम्बर्स को शामिल किया जाएगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 मई, 2021) – हर वर्ष, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम (बी.एस.एच.एफ.) (Brampton Sports Hall of Fame) (BSHF) उन व्यक्तियों की उपलब्धियों का जशन मनाता है, जिन्होंने ब्रैम्पटन में स्पोर्ट्स के विकास में शानदार योगदान दिया है। 2021 में, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम, स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता के लिए शामिल होने वाले पांच नए मेम्बर्स का स्वागत करता है।

ऑरलैंडो बोवेन (Orlando Bowen) को, फुटबॉल में उनकी सफलता के लिए एथलीट श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ब्रैम्पटन में बड़े होते हुए कई खेलों में स्टार एथलीट रहे बोवेन ने, एन.सी.ए.ए. (NCAA) में खेलने के लिए फुटबॉल स्कॉलरशिप हासिल की और वे कनेडियन फुटबॉल लीग (Canadian Football League) में पेशेवर तौर पर खेले थे।

केनेथ कॉंडी (Kenneth Condie) को, हॉर्सशूज के प्रति उनके समर्पण के लिए बिल्डर श्रेणी में शामिल किया जाएगा। कॉंडी, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले, हॉर्सशूज डिस्प्लिन के पहले मेम्बर हैं। उन्होंने 1994 में ब्रैम्पटन मेन्स हॉर्सशू क्लब (Brampton Men's Horseshoe Club) से जुड़ने के बाद, इसके लिए प्रेरणादायक शक्ति के रूप में काम किया और उन्हें 1997 में कमेटी में नियुक्त किया गया था।

टिमोथी ट्रिम्पर (Timothy Trimper) को, ब्रैम्पटन में हॉकी के प्रति उनके समर्पण के लिए एथलीट श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ट्रिम्पर ने ब्रैम्पटन माइनर हॉकी एसोसिएशन (बी.एम.एच.ए.) (Brampton Minor Hockey Association) (BMHA) के लिए इतिहास रचा था, जब वे 1979 में शिकागो ब्लैकहॉक्स (Chicago Blackhawks) के साथ पहली बार खेलते हुए, संगठन के एन.एच.एल. (NHL) में जाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे।

ज़ेनी लिपिंस्की (Zeny Lipinski) को, लैकरोस में उनके योगदानों के लिए, वेटरन श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। लिपिंस्की ने 1957 में ब्रैम्पटन में स्पोर्ट खेलना शुरू करने के बाद, खेलने से लेकर एग्जीक्युटिव बनने तक, लैकरोस के सभी पक्षों में योगदान दिया है।

रॉबर्ट सैंडरसन (Robert Sanderson) को, लैकरोस के प्रति उनके समर्पण के लिए बिल्डर श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ब्रैम्पटन एक्सलसियर्स (Brampton Excelsiors) के साथ सैंडरसन की भागीदारी 1969 में शुरू हुई थी। उन्होंने मेजर एक्सलसियर्स (Major Excelsiors) और कनेडियन बॉक्स लैकरोस (Canadian Box Lacrosse) टीम का प्रबंधन किया, जहां उन्होंने अपने प्रबंधन के अंतर्गत फिलाडेल्फिया (Philadelphia), पैसिल्वेनिया (Pennsylvania) में वर्ल्ड गेम्स (World Games) में गोल्ड मेडल जीता था।

ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम और इस वर्ष के शामिल होने वाले मेम्बर्स के बारे में अधिक जानने के लिए, www.brampton.ca/bshf पर जाएं।

ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम की स्थापना 1979 में, खेल के प्रति समर्पित और इसके शौकीन व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ मिलकर की गई थी। यह 7575 केनेडी रोड साउथ (7575 Kennedy Road South) पर सी.ए.ए. सेंटर (CAA Centre) में स्थित है।

2022 के नामांकन

क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जिसने हमारे शहर में खेलों में कोई शानदार योगदान दिया है? [2022 का नामांकन फार्म डाउनलोड करें \(Download a nomination form for 2022\)](#)! नामांकन 15 जून, 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे।

हवाले

“2021 के ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले मेम्बर्स को बधाई हो! ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम, ब्रैम्पटन में स्पोर्ट्स के इतिहास और उन व्यक्तियों का सम्मान करता है, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी में स्पोर्ट्स में शानदार योगदान दिया है और उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वर्ष के शामिल होने वाले मेम्बर्स ने अपने-अपने फील्ड में उत्कृष्टता दर्शाई है और ब्रैम्पटन में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम इस वर्ष के ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले मेम्बर्स की घोषणा करने के लिए उत्साहित हैं! इन पांच अलग श्रेणियों के व्यक्तियों ने, हर रोज़ खुद को लीडर सिद्ध करते हुए, हमारी कम्युनिटी में स्पोर्ट्स में बड़ा योगदान दिया है। हम उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हैं और 2022 के लिए नामांकन करने की सलाह देते हैं।”

- जेफ बोमैन (Jeff Bowman), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; मेम्बर, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“2021 के ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले मेम्बर्स ने अपने स्पोर्ट्स कैरियर के द्वारा, ब्रैम्पटन को सम्मानित किया है। हम परफॉर्मेंस और योग्यता के सभी लेवल्स के लोगों के लिए 2022 के लिए नामांकनों का स्वागत करते हैं। ब्रैम्पटन के शानदार एथलीट्स, बिल्डर्स, वेटरन्स और टीमों का सम्मान होना चाहिए – आज ही नामांकन करें।”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; मेम्बर, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हालांकि 2020 और 2021 के इंडक्शन समारोहों को महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा, फिर भी मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि वे शामिल होने वाले मेम्बर्स को बधाई दें। नए शामिल होने वाले मेम्बर्स पर विचार करने के लिए, 2022 का नामांकन फार्म डाउनलोड करें।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca